



सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3]
No. 68)

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 8, 1982/चैत्रा 18, 1904
NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 8, 1982/CHAITRA 18, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना सं. 14 ई. टी. सी. (पी. एन.) / 82

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 1982

निर्यात व्यापार नियंत्रण

विषय :—1982-83 के दौरान भारतीय भेड़ के मांस के निर्यात से सम्बद्ध नीति।

मिसल सं. 1/9/82-ई. 1 :—आयात-निर्यात नीति, अप्रैल, 82—
मार्च, 1983 की जिल्द 2 के पृष्ठ 9 पर आने वाले नीति विवरण की क्रम सं. 6 (ख) के सामने संकेतित भारतीय भेड़ के मांस की निर्यात नीति की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

2. अब यह निश्चय किया गया है कि ताजा मांस तथा पशुधन नियंत्रण संघ, बम्बई और दिल्ली तथा गुजरात राज्य निर्यात निगम महाराष्ट्र और राजस्थान राज्य भेड़ और ऊन विपणन संघ, जयपुर के साथ-साथ उप मुख्य निर्यात, आयात-निर्यात, कोचीन के निपटाल पर भारतीय भेड़ के मांस के निर्यात की मासिक उच्चतम सीमा रखी जाए।

3. आयात-निर्यात नीति 1982-83 जिल्द 2 के नीति विवरण में निम्नलिखित संशोधन सदनुसार किए जाए :—

क्रम सं.	संशोधन	संशोधन
1	2	3
1. पृष्ठ 9-10 क्रम सं. 6 (ख) का खंड 3	शर्तें सं. 4 के सामने का पहला पैरा निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :—	

क्रम सं.	संशोधन	संशोधन
1	2	3

“उच्चतम सीमा उप-मुख्य नि. 10, कोचीन, ताजा मांस और पशुधन नियंत्रण संघ, बम्बई और दिल्ली तथा गुजरात राज्य निर्यात निगम लि., महाराष्ट्र और राजस्थान राज्य भेड़ और ऊन विपणन संघ, जयपुर के निपटाल पर रखी जाएगी।”

2. पृष्ठ 9-10 क्रम सं. 6 (ख) का खंड 3

क्रम सं. 5 के सामने की वर्तमान प्रविष्टि को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

“उप मु. नि. 10, कोचीन और ताजा मांस तथा पशुधन नियंत्रण संघ द्वारा किए गए कटे के धाबंदन के आधार पर निर्यात की स्वीकृति सीधे ही सीमा-शुल्क प्राधिकारियों द्वारा प्रदान की जाएगी। गुजरात राज्य निर्यात निगम और राजस्थान राज्य भेड़ और ऊन विपणन संघ के मामलों में निर्यात

1	2	3
	उनके अपने लेख से किया जाएगा। ”	
	मणि नारायणस्वामी, मुख्य निर्यातक, आयात-निर्यात	

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE NO 14-ETC(PN)/82

New Delhi, the 8th April, 1982

EXPORT TRADE CONTROL

Sub:—Policy regarding export of meat of Indian Sheep during 1982-83.

File No. 1/9/82-E1.—Attention is invited to the export policy of meat of Indian Sheep indicated against S.No. 6(b) of Policy Statement on page 9 of Volume II of Import and Export Policy, April 1982—March 1983.

2. It has since been decided to place a monthly ceiling for export of meat of Indian Sheep at the disposal of Dy. Chief Controller of Imports and Exports, Cochin, in addition to the Fresh Meat and Live Stock Exporters' Association at Bombay and Delhi, Gujarat State Export Corporation Limited, Ahmedabad and Rajasthan State Sheep and Wool Marketing Federation, Jaipur.

3. Accordingly, the following amendments shall be made in the policy Statement, in Volume II of

Import and Export Policy, 1982-83 :—

S.No.	Reference	Amendment
1	2	3
1.	Pages 9-10, S.No.6(b). Col.3	The first Para against condition No. (iv) shall be substituted by the following :— “The ceiling will be placed at the disposal of Dy. Chief Controller of Imports and Exports, Cochin, Fresh Meat and Livestock Exporters' Association at Bombay and Delhi, Gujarat State Export Corporation Limited, Ahmedabad and Rajasthan State Sheep and Wool Marketing Federation, Jaipur.”
2.	Pages 9-10, S. No. 6(b) Col.3	The existing condition against S.No. (v) shall be substituted by the following :— “The export will be allowed by the customs authorities directly on the basis of quota allocation made by the Dy. Chief Controller of Imports and Exports, Cochin, and Fresh Meat and Livestock Exporters' Association. In the case of the Gujarat State Export Corporation Limited and Rajasthan State Sheep and Wool Marketing Federation, exports will be done on their own account.”

MANI NARAYANSWAMI, Chief Controller,
Imports & Exports